

NITIN SPINNERS LTD.



NITIN
REF: NSL/SG/2023-24/
Date : 27.07.2023

BSE Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

Company Code – 532698

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, C-1, Block G,
BandraKurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051.

Company ID - NITINSPIN

Sub: Submission of News paper publication for the attention of Equity Shareholders of the Company regarding transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith copy of Notice published on 27.07.2023 in the English Newspaper i.e. "Business Standard " all editions and in Hindi Newspaper i.e. " Pratahkal" Udaipur edition for the attention of Equity Shareholders of the Company in respect of transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority, in accordance with Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time.

The above filing is in pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking you,

Yours faithfully,

For-Nitin Spinners Limited

(Sudhir Garg)

Company Secretary & GM (Legal)

M.No. ACS 9684



CIN. : L17111RJ1992PLC006987

Regd. Office & Plant : 16-17 Km. Stone, Chittor Road, Hamirgarh, Bhilwara (Raj.) 311 025

Tel. : 286110 to113, Fax : 91-1482-286114 & 117

E-mail : nsl@nitinspinners.com, Website : www.nitinspinners.com

SUPIMA®
WORLD'S FINEST COTTONS



USTERIZED®

NMDC Limited
(A Government of India Enterprise)
Khushi Bhawan, 10-33/1 A, Castle Hill, Masab Tank, Hyderabad-500 028
CIN: L1120GZ0100

CONTRACTS DEPARTMENT
Tender Enquiry No: HO(Contracts)/Civil/Architectural Consultancy/2023/181 Dated: 27.07.2023
NMDC Limited, A 'NAVARATNA' Public Sector Company under Ministry of Steel, Govt. of India, invites online bids through MSTC Portal from experienced domestic bidders for "Engagement for Architectural Advisory/Consultancy Services on Relationship Basis for NMDC Limited". The detailed NIT and Bid documents can be viewed and downloaded from 27.07.2023 to 17.08.2023 from following website link:
1. NMDC website: <http://www.nmcd.com>
2. Central Public Procurement Portal (CPP PORTAL): <http://www.eprocure.gov.in/eupublishapp>
3. MSTC portal: <http://www.mstconline.com>
4. In person: logon.jsp and search the Tender No. NMDC/2023/181-24E17952. For further help refer to vendor guide given in MSTC website. Bidders are requested to submit their bids online through MSTC Portal on the details of submission of bid through online are given in NIT. The Bidders on regular basis are required to visit the NMDC's website/CPP Portal/MSTC portal for contingencies, if any, at a future date. For further clarification, CGM(Contracts), NMDC Limited, Hyderabad can be contacted through Fax No. +91-40-23334746, Tel.No. +91-40-23332800, email: contracts@nmcd.com.
Executive Director (Works)

MAN Industries (India) Ltd
the line people
CIN: L9999MH1989PLC047408
Registered Office: Man House, 101, S.V. Road, Opp. Pawan Hills, Vile Parle (West), Mumbai-400 056 | Website: www.manngroup.com, Email: investor@manindia.com
Tel. No.: 022-55417550, Fax No.: 022-55417602

NOTICE
Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)
Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules"), Dividend declared for the financial year 2015-16 which remained undivided / unpaid for a period of seven years will become due for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF) on 30th September, 2023. Further, the shares in respect of which dividend remained undivided / unpaid for seven consecutive years or more shall also be transferred to IEPF.
In case, where there is a specific order of Court or Tribunal or Statutory Authority vesting any transfer of shares and payment of dividend or where such shares are pledged or hypothecated under the provisions of the Depositories Act, 1986 or shares already transferred, the company shall not transfer such shares to the IEPF. However, the concerned shareholders are required to provide documentary proof in this regard. As per the requirement of the said Rules, individual communications are being sent to concerned shareholders whose shares are due for transfer and details of such shareholders along with their folio no./DP & Client ID and number of shares are being uploaded on the Company's website (www.manngroup.com).
The shareholders are requested to verify their details of undivided/unpaid dividend and the shares liable to be transferred to the IEPF Authority. The concerned shareholders can make application to the Company/Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) on or before October 23, 2023 to enable the Company/RTA to process their applications by the due date of transfer of shares and dividend to IEPF. The contact details of the RTA are: 101, 247 Park, 193 Marg, Windsor Mills, Mumbai - 400 063, Tel. No. +91 22 45198100. Email: iepf@manindia.com.
Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing new/unpaid share certificates in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the new/unpaid share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the IEPF Authority.
The shareholders may further note that the details made available by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of new/unpaid share certificate(s) to the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF. Please note that no claim shall be against the Company in respect of the aforesaid undivided/unpaid dividend and shares once the same are transferred to IEPF. The shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.

For Man Industries (India) Limited
Date: 26.07.2023
Place: Mumbai
Rahul Rawal
Company Secretary

Form No. INC-25A
Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company
Before the Regional Director,
Ministry of Corporate Affairs,
Northern Region
In a matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In a matter of M/s. SBI Industrial Park Limited having its registered office at 190-1, Kishanapuram, G.T. Road, Kanpur, Uttar Pradesh-208007 India. Applicant
Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 29th June 2023 to enable the company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post with his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director B-2 Wing, 2nd floor, Pt. Desai Marg, Anandapada Bhawan, 2nd floor, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company 190-1, Kishanapuram, G.T. Road, Kanpur, Uttar Pradesh-208007 India.
For and on behalf of the Applicant:
SBI Industrial Park Limited
Rohit Agarwal
Director - DIN 02891956
Date: 27th July 2023
Place: Kanpur
190-1, Kishanapuram, G.T. Road, Kanpur, Uttar Pradesh-208007 India.

MAN Industries (India) Ltd
the line people
CIN: L9999MH1989PLC047408
Registered Office: Man House, 101, S.V. Road, Opp. Pawan Hills, Vile Parle (West), Mumbai-400 056 | Website: www.manngroup.com, Email: investor@manindia.com
Tel. No.: 022-55417550, Fax No.: 022-55417602

NITIN SPINNERS LIMITED
CIN: L11711RJ1982OC069871
Registered Office: 15-17 Km. Stone, Chakkar Road, Mangalpur, Bhiwani - 311025 (Raj.) Phone No. 01482 289116, Fax No. 01482 289117
Email: investor@nitinspinners.com or info@nitinspinners.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS
Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)
Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 (b) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules 2016") as amended time to time provided for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the prescribed manner. In accordance with the Rules, all the underlying shares in respect of which dividend are not paid/claimed for the last 7 (Seven) years from financial year 2015-16, have to be transferred to the Demat account of IEPF Authority.
The Company has already sent individual notices by Speed Post at the latest available addresses of the shareholders, whose dividends are lying undivided for last 7 (seven) years, advising them to claim the dividends expeditiously. The Company has also uploaded full details of such shareholders including their names, folio nos. or DP ID No. etc. on its website i.e. www.nitinspinners.com under Investor section.
Accordingly, the concerned shareholders are requested to verify and claim their entire undivided dividend before due date. The undivided dividend for the financial year 2015-16 will be due for transfer on 31st October, 2023 and will be transferred on or before 30th November, 2023. In case the Company's Registrar and Transfer Agent doesn't receive any communication from shareholders, the Company shall, with a view to comply with the Rules, transfer such shares to the Demat account of IEPF Authority.
Shareholders holding shares in physical form may note that the Company would issue duplicate share certificate(s) and inform the depository to dematerialize the same to reflect the transfer in favour of the IEPF Authority. Equity shares held in Demat mode will be directly transferred to IEPF Authority with the help of depository participants (DPs). No claim shall lie against the Company in respect of undivided dividend and equity shares transferred to the IEPF Authority.
Shareholders may note that shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares if any, can be claimed back from IEPF Authority as per the procedures prescribed under the Rules. For any clarification on this matter, shareholders may contact the Company as per details given above or to its Registrar and Transfer Agent i.e. Bigshare Securities Private Office No. S6-2, 8th floor Finance Business Park, Next to Akura Centre, Mahalakshya Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400033 (Maharashtra) Phone: 022-66833200. Email: www.rto@bigshare.com Website: www.bigshareonline.com

For Nitin Spinners Ltd
Sudhir Garg
Company Secretary & GM (Legal)
Date: 26.07.2023
Place: Bhiwani

NORTHERN RAILWAY
TENDER NOTICE
Invitation of Tenders through E-Procurement system.
Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi-110001, for and on behalf of the President of India, invites e-tenders through e-procurement system for supply of the following items:-

S/No.	Tender No.	Brief Description	Qty	Closing Date
01	07220314B	BALL JOINT ROLL LINK FOR FAT BOGIE	4193 NOS	15-08-23
02	1423087A	DISSOLVED ACETYLENE GAS	6662 CUM	21-08-23
03	11231521B	HEX. HEAD BOLT, STEEL, M12 X 5.8 - 8.8	35564 KGS	21-08-23
04	07231487	AUXILIARY RESERVOIR, 200 LITERS	221 NOS	24-08-23
05	07231217	OVERHAULING KIT FOR IAI MAKE	1555 SET	03-10-23

Note-1: Vendor may visit the IREPS website i.e. www.ireps.acin.in for details. 2. No Manual offer will be entertained.
Tender Notice No. 37/2023-2024. Dated: 26/07/2023

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

GOVERNMENT OF TAMIL NADU
FINANCE DEPARTMENT,
CHENNAI-9
Dated: July 26, 2023

PRESS COMMUNIQUE
It is notified for general information that the outstanding balance of 5.09% Tamil Nadu SDL, 2023 issued in terms of the Government of Tamil Nadu, Finance Department, Notification No. 594/JW/M-1/2020, dated August 21, 2020 will be repaid at par on August 26, 2023 with interest due up to and including August 25, 2023. In the event of a holiday being declared on the aforesaid date by any State Government under the Negotiable Instruments Act, 1881, the loan will be repaid by the paying offices in that State on the previous working day. No interest will accrue on the loan from and after August 26, 2023.

2. As per sub-regulation 24(2) and 24(3) of Government Securities Regulations, 2007 payment maturity proceeds to the registered holder of Government Security held in the form of Subsidiary General Ledger or Consolidated Subsidiary General Ledger account or Stock Certificate shall be made by a pay order incorporating the relevant particulars of his bank account or by credit to the account of the holder in any bank having facility of receipt of funds through electronic means. For the purpose of making payment in respect of the securities, the original subscriber or the subsequent holders of such a Government Securities, as the case may be, shall submit to the Bank or Treasury and Sub-Treasury or branch of State Bank of India, where they are enclosed / registered for payment of interest, as the case may be, the relevant particulars of their bank account.

3. However, in the absence of relevant particulars of bank account/mandate for receipt of funds through electronic means, to facilitate repayment on the due date, holders of 5.09% Tamil Nadu SDL 2023, should tender their securities at the Public Debt Office, 20 days in advance. The securities should be tendered for repayment, duly discharged on the reverse thereof as under:-

"Received the Principal due on the Certificate".

4. It should be particularly noted that at places where the treasury work is done by a branch of the State Bank of India, the securities, if they are in the form of Stock Certificates, should be tendered at the branch of the bank concerned and not at the Treasury or Sub-Treasury.

5. Holders who wish to receive payment at places other than those where the securities have been encashed for payment should send them duly discharged to the Public Debt Office concerned by Registered and Insured Post. The Public Debt Office will make payment by issuing a draft payable at any Treasury/Sub-Treasury or branch of State Bank of India conducting Government Treasury work in the State of Tamil Nadu.

Udhayachandran
Principal Secretary to Government,
Finance Department, Chennai-9.
DIPR/ 863 /DISPLAY/2023

AJMERIA REALTY & INFRA INDIA LIMITED
CIN: L27104MH1985PLC035655
Registered Office: 2nd Floor, C88 Hall, New Link Road, Andheri (West), Mumbai-400 053
Tel: +91-22-6868 4600 Fax: +91-22-2632 5962
Email: investor@ajmeria.com; Website: www.ajmeria.com

NOTICE OF THE 36th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION
NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of Ajmeria Realty & Infra India Limited ("the Company") will be held on Saturday, August 19, 2023 at 3:00 p.m. (IST) through video-conferencing ("VVC") other audio-visual means ("AVM"), to transact the businesses, as set out in the Notice of the AGM. The Company has sent AGM Notice of the Company for FY 2022-23 on Wednesday, July 26, 2023, only through electronic mode, to those members whose email-ids have been registered with the Company's Depositories as on the cut-off date i.e. Friday, July 21, 2023, in compliance with the Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India. The AGM Notice along with the Annual Report are available on the Company's website www.ajmeria.com; websites of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the e-voting service provider i.e. National Securities Depository Limited ("NSDL") at <https://www.evoting.nsdl.com/>.

Members, holding shares as on the cut-off date for e-voting i.e. Saturday, August 12, 2023, may cast their votes, electronically, on the businesses set out in the AGM Notice, by referring to procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM given in the AGM Notice, and also available on the e-voting website of NSDL <https://www.evoting.nsdl.com/>.

The remote e-voting period shall commence on Wednesday, August 16, 2023 (8:00 a.m. IST) and ends on Friday, August 18, 2023 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The voting rights of the members shall be in proportion to the equity shares held by them as on the cut-off date for e-voting. Members can cast their votes on the businesses set out in the AGM Notice, either through remote e-voting facility made available on the above dates, or through e-voting facility made available at the AGM.

Members who have already cast their votes through remote e-voting shall not be entitled to cast their votes again at the AGM. Any person, who has not registered his/her email id in the Company's records and holds equity shares as of the cut-off date for e-voting i.e. Saturday, August 12, 2023 may obtain their Login id and password for e-voting by following the instructions given in the AGM Notice or by sending an email to evoting@nsdl.com. However, if a person/entity is already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing User ID and password for casting their votes.

In case of any enquiry/guidance, in respect of remote e-voting and attending the AGM through electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free nos.: 022-4686 7000 and 022-2499 7000 or send a request to evoting@nsdl.com. In case of any grievances connected with facility for e-voting, please write Email at: evoting@nsdl.com or contact on Toll Free Nos: 022-4686 7000 and 022-2499 7000.

The Board at its meeting held on Thursday, May 11, 2023, has recommended a final dividend of ₹3/- (30%) per equity share of face value of ₹10/- each for FY 2022-23, subject to approval of the members at the 36th AGM of the Company. The final dividend will be paid to the members holding shares of the Company as on the record date i.e. Friday, August 4, 2023. Members are requested to refer Company's Communication in relation to Dividend Disbursement and related formal declarations thereto which is also hosted on the Company's website at <https://ajmeria.com/investor-comer/annual-reports/>.

For Ajmeria Realty & Infra India Limited
Sd/-
Date: July 26, 2023
Place: Mumbai
Kartik Sharma
Company Secretary and Compliance Officer


Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd. ADITYA BIRLA CAPITAL

Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited : Newspaper Publication Publishing Purpose : Standalone
[Regulation 52 (8) read with Regulation 52 (4) of the Listing Regulations] (Amounts in lacs of Indian Rupees)

Sr No.	Particulars	Quarter ending 30 th June, 2023	Quarter ending 30 th June, 2022	Year Ended 31 st March, 2023
		(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Premium Income (Gross) (Refer note (b))	3,07,602	2,59,129	14,95,021
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)#	5,528	2,912	15,385
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)# (Refer note (c))	5,528	2,912	15,385
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)#	4,264	2,317	13,850
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Refer note (d)	NA	NA	NA
6	Equity Share Capital (as at date)	1,97,513	1,90,121	1,93,823
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet (Refer note (e))	1,21,080	61,678	95,197
8	Securities Premium Account	63,608	20,000	42,298
9	Net Worth	3,19,276	2,55,970	2,92,610
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Capital	50,000	50,000	50,000
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA
12	Earning Per Share (Basic and Diluted), Face Value of Rs. 10 (In Rs.) (not annualized for three months)	0.22	0.12	0.72
13	Debt Equity Ratio (as at date) (no of times)	0.16	0.20	0.17
14	Capital Redemption Reserve (as at date)	6,829	6,829	6,829
15	Debenture Redemption Reserve (as at date)	5,000	5,000	5,000
16	Debt service coverage ratio (no of times)	6.96	5.14	5.12
17	Interest service coverage ratio (no of times)	6.96	5.14	5.12

Notes:
a) The above is an extract of the detailed form of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com) and www.bseindia.com) and the Company's website <https://www.lifeinsurance.adityabirlacapital.com>
b) Premium income is gross of reinsurance and net of GST
c) Net Profit / (Loss) before tax, for the period is Profit before tax as appearing in Profit and Loss Account (Shareholders' Account)
d) Line item No. 5 would be disclosed when Ind-AS becomes applicable for Insurance Companies.
e) Reserves are shown excluding Revaluation reserve and fair value change account
f) #-Exceptional and / or Extraordinary items adjusted in the statement of Policyholders' and Shareholders' account with Ind-AS Rules/ AS Rules, whichever is applicable
Mumbai, July 25, 2023

For and on behalf of the Board of Directors
Kamlesh Rao
Managing Director & CEO
(DIN: 07665616)



नितिन स्पिनर्स लिमिटेड

CIN : L17111RJ1992PLC006987

पंजीकृत कार्यालय :- 16-17 कि.मी. स्टोन, चित्तौड़ रोड़,

हमीरगढ, भीलवाड़ा (राज.) 311025

फोन नं. 01482 - 286110 से 113, फेक्स नं. 01482 - 286117

ईमेल - investorrelations@nitinspinners.com

वेबसाइट - www.nitinspinners.com

अंशधारकों हेतु सूचना

कम्पनी के समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) खाता में हस्तांतरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (लेखा, संपरिक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम 2016") यथा समय यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचना दी जाती हैं। आईईपीएफ नियम 2016 में, अन्य मामलों के अतिरिक्त, ऐसे सभी अंशों, जिनके सम्बन्ध में लगातार 7 (सात) वर्षों से लाभांश की अदायगी अथवा अंशधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया हो, को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को निर्धारित तौर पर हस्तांतरण हेतु प्रावधान शामिल हैं।

नियमों के अनुसार, ऐसे सभी अंतर्निहित अंशों को, जिनके सम्बन्ध में गत 7 (सात) वर्षों, वित्तीय वर्ष 2015-16 से लाभांश की अदायगी/दावा नहीं किया गया है, को आईईपीएफ के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाना है।

कम्पनी ने ऐसे अंशधारकों, जिनके लाभांश का दावा गत 7 (सात) वर्षों से नहीं किया गया है, को शीघ्र लाभांश का दावा करने हेतु सलाह देते हुए उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर स्पीड-पोस्ट के माध्यम से, व्यक्तिगत सूचना पहले ही प्रेषित कर दी है। कम्पनी ने ऐसे सभी अंशधारकों का पूर्ण विवरण, उनका नाम, फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी सहित, अपनी वेबसाइट अर्थात् www.nitinspinners.com पर इन्वेस्टर्स अनुभाग के अन्दर अपलोड कर दिया है।

तदनुसार, संबंधित अंशधारकों से अनुरोध है कि वे उत्तर दें तथा अपने सभी लाभांश का दावा नियत तिथि से पूर्व कर लें। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु गैर-दावाकृत लाभांश 31 अक्टूबर, 2023 को हस्तांतरण हेतु देय हो जाएगा तथा 30 नवम्बर, 2023 अथवा उसके पूर्व हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यदि कम्पनी/रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट का अंशधारकों से कोई संवाद प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी नियमों का पालन करने की दृष्टि से ऐसे अंशों को आईईपीएफ के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर देगी।

भौतिक तौर पर अंशों के संघटक अंशधारक कृपया ध्यान दें कि कम्पनी डू प्लिकेट अंश प्रमाण पत्र(त्रों) को जारी करेगी और आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए डिपोजिटरी को इन्हें डीमैटेरियलाइज करने हेतु सूचित करेगी। डीमैट तौर पर संघटित समता अंशों को डिपोजिटरी, प्रतिभागियों (डीपी) की मदद से सीधे आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।


आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित लावारिस लाभांश और समता अंशों के सम्बन्ध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित अंशों को सभी एकत्रित लाभों सहित, यदि हो, आईईपीएफ प्राधिकरण से नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, पुनः दावा कर के प्राप्त किया जा सकता है। इस मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, अंशधारक कम्पनी से उपरोक्त पते पर या रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट से इस पते पर- **Bigshare Services Private Limited** Office No S6-2, 6th floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai - 400093 (Maharashtra). Phone: 022 - 62638200 Email: vinod.y@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com संपर्क कर सकते हैं:

कृते नितिन स्पिनर्स लिमिटेड

दिनांक: 26 जुलाई 2023
स्थान: भीलवाड़ा

सुधीर गर्ग
कम्पनी सचिव



NITIN SPINNERS LIMITED

(CIN : L17111RJ1992PLC006987)

Regd. Office – 16-17 Km. Stone, Chittor Road,
Hamirgarh, Bhilwara – 311025 (Raj.)

Phone No. 01482-286110, Fax No. 01482-286117

E-mail : investorrelations@nitinspinners.com

Website : www.nitinspinners.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules 2016") as amended time to time provides for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the Shareholders for seven consecutive years or more in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority in the prescribed manner. In accordance with the Rules, all the underlying shares in respect of which dividend are not paid /claimed for the last 7 (Seven) years from financial year 2015-16, have to be transferred to the Demat account of IEPF Authority.

The Company has already sent Individual notices by Speed Post at the latest available addresses of the shareholders, whose dividends are lying unclaimed for last 7 (seven) years, advising them to claim the dividends expeditiously. The Company has also uploaded full details of such shareholders including their names, folio nos. or DP ID/ Client ID, etc. on its websites i.e. www.nitinspinners.com under Investors section.

Accordingly, the concerned shareholders are requested to reply and claim their entire unclaimed dividend before due date. The unclaimed dividend for the financial year 2015-16 will be due for transfer on 31st October, 2023 and will be transferred on or before 30th November, 2023. In case the Company/ Registrar and Transfer agent doesn't receive any communication from shareholders, the Company shall, with a view to comply with the Rules, transfer such shares to the Demat account of IEPF Authority.

Shareholders holding shares in physical form may note that the Company would issue duplicate share certificate(s) and inform the depository to dematerialize the same to effect the transfer in favour of the IEPF authority. Equity shares held in Demat mode will be directly transferred to IEPF authority with the help of depository participants (DPs). No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and equity shares transferred to the IEPF Authority.

Shareholders may note that shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares if any, can be claimed back from IEPF authority as per the procedures prescribed under the Rules. For any clarification on this matter, shareholders may contact to Company as per details given above or to its Registrar and Transfer Agent i.e **Bigshare Services Private** Office No S6-2, 6th floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093 (Maharashtra) Phone: 022 – 62638200. Email: vinod.y@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com.

for Nitin Spinners Ltd.

Date : 26.07.2023
Place : Bhilwara

Sudhir Garg
Company Secretary & GM (Legal)